


उत्तराखण्ड शासन  
नागरिक उड्डयन विभाग,  
संख्या:- 607/2018-171/IX/2007  
देहरादून: दिनांक 03 नवम्बर, 2018  
~~दिसम्बर~~  
कार्यालय-ज्ञाप

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2018 हेतु नागरिक उड्डयन विभाग से निम्नवत अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है:-

क. सं.	नाम एवं पदनाम	दूरभाष संख्या
1.	2.	3.
1.	श्री गिरीश चन्द्र जोशी उप सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	9927699402
2.	श्री के० संतोष कुमार, वरिष्ठ अनुरक्षण अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, जौलीग्रान्ट, दे.दून।	9411382215


2. निर्देशित किया जाता है कि उक्त नोडल अधिकारी दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 से प्रारम्भ होने वाले विधान सभा के तृतीय सत्र, 2018 के लिए प्रातः 9:30 बजे विधान सभा भवन देहरादून स्थित विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग से सम्पर्क कर विधान भवन देहरादून में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सूचनायें प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

  
(दिलीप जावलकर)  
सचिव

संख्या:- (1)/2018-171/IX/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, विधान सभा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दोनो नोडल अधिकारियों को विधान सभा पास निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, नागरिक उड्डयन, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, जौलीग्रान्ट, देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा को इस आशय से प्रेषित कि सत्र अवधि हेतु एक राजकीय वाहन, वाहन चालक सहित नोडल अधिकारियों के साथ सम्बद्ध करते हुए शासन को भी सूचित करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित अधिकारीगण।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(चिरजी लाल)  
अनु सचिव।